



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 12-2024] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 19, 2024 (PHALGUNA 29, 1945 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 13 मार्च, 2024

क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/03/2024 से 11/06/2024 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 11 मार्च, 2024

टी०वी०एस०एन० प्रसाद,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

10944—C.S.—H.G.P., Pk1.